

May 20, 2022

The Secretary,	Asst. Vice President,
BSE Limited	National Stock Exchange of India
Corporate Services Department ,	Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex,
Dalal Street,	Bandra (East), Mumbai-400051
Mumbai-400001	
Scrip Code: 532529	Scrip Symbol: NDTV

Subject: Submission of Newspaper Publication re: Audited Financial Results

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication for Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2022, published in Hindi and English language on May 20, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited

(Parinita Duggal) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

SMALL BUSINESS APP'S USERS TO GET PREMIUM FEATURES

WhatsApp Business to open up with cloud API

Messaging platform to also offer vanity URLs

NANDAGOPAL RAJAN New Delhi, May 19

WHATSAPP BUSINESS IS opening up for all businesses and developers with the new easier-to-use cloud-hosted ver-sion of its API, Meta announced sion of its API, Meta announced Thursday, The messaging plat-form will also roll out premium features to the 50 million, odd wanty URA for 50 million, odd wanty URA for customers to reach out. "We have had the WhatsApp API available for larger busi-nesses, but it's been a complex product to get started with You have to have someone imple-ment the software for you, host tifoyou and maintain the software for you, host

ment the software tor you, nost if foryou and maintain the soft-ware for you. And that's a lot of complexity and burden to get started. The cloud-hosted ver-sion of the WhatsApp API removes all that complexity and you can get started in just a few minutes," Matt I dema, vice-mendent burdens were seen president, business messaging, Meta, said on a call from Califor-

nia. Idemasaid the new platform rin. Idemassid the new platform will be something to graduate to "whether you are an individual developer, working on an entre-preneurial project of your own or a smaller company". He said the new AFI means "partners can focus on building the tools and services that they want to deliver to customers on top of WhatsApp" and "wecantake the installation, maintenance and hosting of the AFI off their plate". The custom URL option being rolled out to business users, kiema aid, is "very simi-lar to how you have a UKL for

stores, they were asking cus-tomers to just message when they needed groceries," he remembered, adding that then they hadn't built the tools that made this conversation easy for businesses.

Matt Idema, vice-president, business messaging, Meta, said small businesses will also get multi-device capability, allowing multiple phones to manage the same WhatsApp number The custom URL feature will be a tool to promote business on Facebook and Instagram with click-to-message ads No. 1 week the perfect gift for a memory weeking for pre-sell of learning of its WhatsApp, ne from India 400 million users

your web page, or a name for your app". He said along with this, small businesses will also get multi-device capability, allowing multiple phones to manage the same WhatsApp number. This is a feature that a lot of small businesses have been asking them for a long time, he added. WhatsApp believes this sail part of a natural evolution and users wantbusiness to be part of their messaging experience. A lot of learning came from India, one of its biggest markets with over 400 million users. "Small business owners were already "It started with a belief that people wanted this because it's what we were seeing in the usage of the app, and we have slowly introduced capabilities to make it possible. We think this is a natural part of what people want to do as a part of What-earn And it's expensible during

want to do as a part of What-sApp. And it's especially during the pandemic, we saw that it's been incredibly useful," he explained. But this has been done male-ing sure people feel like they are incontrol." If the conversation is one they no longerwant to have, they can control that. We need to make stree we're building son. make sure we're building sys make sure we're building sys-tems to ensure that the experi-ence of talking to a business remains high quality." he said, alsoqualfying that business too don't want to make the experi-ence of messaging with them bad. Most of the features are the result of what businesses were

Neelkanth Mishra at Explained.Live today

over 400 million users. Small business owners were already using WhatsApp, they were putting numbers up on their stores, they were asking cus-

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, May 19

JUSTWHENTHERE were signs of India clambering out of the pandemic-hit economy, its growth story has been affected with inflation spiralling out of control control.

The focus has now shifted or the CPI-based inflation crossing the RBI-set upper band of 6% everymonth since

In an unscheduled meeting on May 4, the RBI's Monetary Policy Committee increased the key policy rate by 40 basis points to 4.40%, the first hike points to 4.40% the first hike in four years. This is just the beginning, more rate hikes are almost a certainty if inflations remains elevated and turns structural if it hasn't already. With the Russia-Ukraine war continuing to unravel, high fuel prices may well continue. Global food prices too have surged to an all time high. As inflation trickles down to inmact our everydavilows it

act our everyday lives, it

Roadmap for manned space flight: Isro to launch 'abort missions' this year

ESHA ROY New Delhi, May 19

THE INDIAN SPACE Research The INDIAN SPACE Research Organisation (Isro) will conduct two unmanned "abort missions" this year to simulate failure and ensure crew safety "under those circumstances" as part of its roadmapto launch the country's first manned flight to space, Gaganyaan, in 2024, Isro chairman S Somanath told The Indian

Express "Our first priority is human "Our first priority is human safety. So, we are now focusing on the simulation of the simulat-ing failures and bringing the crew back safely under those circum-stances. The first test vehicle for this purpose is ready and we will launch it in September this year. The human capsule will be sent up 15 kilometres, we will simu-late an about and then the capsule will be safely brought down by parachutes into the sea." Somanah, who is also secretary. Department of Space, said. 'Our first priority is human

is time to seek answers to trou-bling questions: How long can retail inflation continue to remain high? Are rate hikes and absorbing liquidity the only instruments the RBI has toblunt prices?Wouldn'ti kill incipient demand and hurt growth? Is stagflation (high inflation low erowth)looming

Council. He will help us unpaci

Explained.Live n TheHinduZone.com the inflation basket,

ahead at its trajectory and bet-ter understand the nuances of policy making — both mone-tary and fiscal — in times of high inflation. The session will

growth? Is stagflation (high infiation,low growth)looming large for the Indian economy? The Indian Express attempts to finds ome answers through its Explained Live webinar at 6 pm on May 20 with Neelkanth Mishra, India stategist and an analyst with Credit Suisse, who is also part-time member of the Prime Minister's Economic Advisory Council Hewill behavisuras 6

Khadki, Pune - 411 003 CIN: L29100PN2009PLC133351

saw theywere using the services for. "I remember meeting with many of them in Mumbai and Delhi, and theyworld take such their stores and show us how they have to hits an extra person just to answer all these What-sdap messages. And most of the time, if is the same question, or send me a picture of it, or what is it is "Memacylained, about how they sarted to build tools to just make it easier for the busi-ness owner to respond to com-mon questions. many of them in Mumbai and

sking for and what WhatsApp

Then came the next stage of businesses warning * a profile that looks different from what a regular user of the consumer appr and of This led to the intra-duction of business profiles for lowed by catalogues, which made it easy for businesses to upload their product pictures and tackle basic questions. We have just continued to listent to especially what small businesses have been asking us for and especially what small businesses have been asking us for and adding those tools to the prod-uct. That's part of the reasonwe are so excited about the pre-mium offerings. Those are like power tools for businesses that really run on WhatsApp." The custom URL feature will be about to momente their human on to promote their business on Facebook and Instagram with click-to-message ads, Idema

business, you decide you want to purchase the product, and you just want it to be easy. You just want to tap and pay digitally. And that is the promise of UPI. We are quite glad we invested in it and quite hopeful that by making that available for busi-

Stop ads for services not part of cover, motor insurers told

THE INSURANCE REGULA-TORY and Development Authority of India (Irdai) on Thursday asked motor insur-

India saidi ti s noticed that the service agreements, in addition to claim services, extend certain assistance ser-vices not related to insurance claims, such as free-pick up and drop of vehicles, body wash,interiorcleaning, inspec-tion of vehicle, etc. "While the bundling of

Thursday asked motor insur-ance providers to discontinue advertisements showing ser-vices. Whet free pick-up and drop of vehicles, which are not partof the insurance cover. Beneral insurance cover, shops/garages for the purpose of providing motor insurance claim services for tepair of acci-centvehicles. In drai said it is notice that the service agreements, in



ent of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

		Standalone	1	Consolidated			
Particulars	3 months ended (31/03/2022)	Current year ended (31/03/2022)	Corresponding 3 months ended (31/03/2021) in the previous year	3 months ended (31/03/2022)	Current year ended (31/03/2022)	Corresponding 3 months ender (31/03/2021) in the previous year	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total income from operations (net)	5,822	23,091	4,841	10,380	39,640	8,472	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,778	5,919	1,773	2,806	9,120	2,999	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,778	5,919	1,773	2,806	9,120	2,999	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,778	5,919	1,773	2,416	7,984	2,611	
Total Comprehensive Income for the period	1,830	6,010	1,784	2,520	8,118	2,639	
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	
Other equity	14	31,970		1	20,706		
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)							
Basic	2.76	9.18	2.75	3.75	12.38	4.05	
Diluted:	2.76	9.18	2.75	3.75	12.38	4.05	

Date : 18 May, 2022

kirloskar **Oil Engines**

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH 2022

			Standalone		Consolidated			
Sr.	Particulars	Quarter	Ending	Year ending	Quarter Ending		Year ending	
No.	Particulars	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	990.03	914.58	3,299.66	1,181.95	1,087.17	4,021.98	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	89.52	107.25	210.05	90.95	114.18	231.88	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	142.17	98.88	262.70	90.95	105.81	231.88	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	119.56	72.70	208.01	67.83	78.12	170.87	
5	Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	121.95	76.49	211.07	70.30	82.18	174.04	
6	Paid-up equity share capital (Face value of ₹2 each)	28.92	28.92	28.92	28.92	28.92	28.92	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	2,110.54	1,954.23	2,110.54	2,052.75	1,893.22	2,052.75	
8	Basic EPS (₹) (Face value of ₹ 2 each) [not annualized]	8.27	5.03	14.38	4.79	5.40	12.07	
9	Diluted EPS (₹) (Face value of ₹ 2 each) [not annualized]	8.26	5.03	14.36	4,79	5.40	12.03	

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regula 2015. The full format of the Guarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's we (www.kindswebsingingings.com).

town known overgeness come. During the quarter anded 31[°] Merch 2022, AFHPL has incorporated a new company viz, "Arka investment Advisory Services Private Limited" (AIASPL) being a wholly owned subsidiary of AFHPL. AIASPL is yet to commence its business activities to act as investment Manager for the purpose of Management of funds and undertaking Advisory Business. As such AIASPL is a wholly owned subsidiary of AFHPL and is step down busiliary of the Farer Company.

3 The figures for the quarter ended 31^e March 2022 are balancing figures between audited figures in respect of full financial year ended 31^e March 2022 and the published year to date figures upto the third quarter ended 31^e December 2021, which have been regrouped / rearranged wherever necessary. Further the figures for the previous periods have been regrouped wherever required to make them omparable with those of the current period.

4 The Board of Directors of the Parent Company in its meeting held on 19th May 2022 has recommended a final dividend of Rs. 2:50/- (125%) per fully paid up equity share of Rs. 2 each for the year ended 31" March 2022

5 The above consolidated fina Company in their respective vildated financial results for the quarter and year ended 31" March 2022 are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent respective meetings held on 19" May 2022.

Tet +91 20 2581 0341 - Fax: +91 20 2581 3208, 2581 0209
 Email: investors@kirloskar.com - Website: www.koel.kirloskar.

New Delhi



Place : Pune Date : 19th May 2022



be moderated by nationa

nesses as well, it will be really valuable for consumers."


"While the bundling of (such)facilities with insurance is

(such)tacliftes with insutancess left to the motor service providers, the general insurers issuing advertisements on the saidservices, projecting themas benefits provided within the insurance cover is unaccept-able,"Irdai said in a circular. **PT**I

Capital formation on an uptrend

SINCE FY20, THE GROSS fixed capital formation (GFCF) component of India's SOP has been modest, showing a declining transform 92,5% in FY19 to 26.6% in FY21, reports **fe Bureau** in **Humbal**. In FY21, it declined by 8.3% in ocu-rent prices but thereafter in H1FY22, the GFCF improved to 27.5%. The NSO estimates that for the full year, it could be as good as 23.3%. A study by Bank of Barda (BoB) shows that in the first six months of FY22, then et investment in gross fixed assets for a universe of 2,241. compa-nies increased by ₹20,058 core over March. A clutch of 522 compa-nies increased the size of nies increased the size of their gross fixed assets by ₹39,419 crore, while 812

The sectoral picture



Ret investment H1FY22, ₹ cr

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

reduced them by ₹19,361

reduced them by 71.9.361 corter. The remaining 907 companies witnessed no change in gross fixed assets. Of 33 industries, 1.8 industries have shown positive accretion of investmert in assets with an aggregate increase of around 724,000 corte. However, of these, around 724,000 corte.

investment or ab ₹500 crore each.

FINANCIAL EXPRESS

Change in investment in property, plant & equipment and CWIP in H1FY22, ₹ crore Source: Ace Equity, Bank of Baroda Research

For Kirloskar Oil Engines Limited

xecut	ve Chai	rman	
	N: 0000		



year, sentto agreater height and then brought back after a simi-lar simulation is carried out. "We are intentionally delay-ing the manned mission as this

be launched in December this

First priority is

human safety: Isro chairman S Somanath

is a very dangerous mission. If this is not successful, then the this is no successful, then the entire project may even have to be closed down.So, we have to be extremely accurate and absolutely succ.Aunsuccessful mission will have a very bad impact on the system as well as on Isro? Somanath said. The ISRO chief pointed out that which the major nutroes of

The ISRO chief pointed out that while the main purpose of the Gaganyaan mission is to demonstrate India's capability, it is also the first step toward an Indian Space Station in the future.



look

the webinar at: http://bit.ly/3sF9MMi

TO REGISTER sms-lEE sms- IEEXP <space> PD <space> Your Name and Email id to 56161

be moderated by national busi-ness editorAnil Sasi. Through the Explained Live webinars, The Indian Express not only goes behind the headlines to make sense of news as it unfolds but breaks it down so that you under-stand how it impacts your everydaylife.Registernowfor the webinarat:

click-to-message ads, Idema explained. The ability to make pay-ments within WhatsApp will alsobean importantpart of this. "We have spent so much time and energy making it possible to use payments in WhatsApp. You have a great conversation with a business, you decide you want to write back the pay of the second

mon questions. Then came the next stage of

पार्ट-२, इबदीइस्टमी क्षेत्र के ऊपर, नहें डिस्ली-110 प्र ुट्टिंट - पत्र ह 13 मई, 2022 को इस वमाव्य पत्र में प्रकलीता अपल सम्वींग र सदर्भ में है। इस विक्री युस्ला में क्रम्प स. 3, श्री राजेंग कुम्बर दे जाता सं, श्राटाऽअट में आरीच्या मुख्य पर्य परिप्रते दत्त स्वराय्य सा. 1000000-7 वर्षीय है। सार्व आराधित न्	की मिलनी सूचना र (जटगथारक) को से जन्मरर बूल्य एवं धरोहर			सलो दाः पंजीकृत कार्यात के दूरभाष_011- के एतद द्वारा सूचना दी प्रकटीकरण अपेक्षाए	40115817 ईमेल: बसाइट: www.salo सूचना 1 जाती है कि सेवी (2 विनियम, 2015 के	िलिमिटेड LC004962 त्वा इंडस्ट्रियत एरिया, 10 020 sect@salora.com Ha.com स्वीबद्धता बाधपताएँ और विनियम 47 के साथ पठित	तृती प्रा	ोय और चतुर्थ तल स्टेट कें परिशिष्ट IV-व विमूति हित (प्रवर्तन) निम न जनता को और विशेष न	5 हाकस, 18/4, आर्या 5, (नियम 8(6) व ई 1म 2002 के नियम ह प्रवर्तन अधिनियम त्रम से उधारकर्ता, बंध	-जीत्रामी दिनांक 06.05.2022 हेतु न (6) के परन्तुक के साथ पवित विसीय आसितमें क (2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विकय हेतु ई- ककती और गारंटसं को यह नोटिस दिया जाता है वि	8752163, फैक्स नं. 287 सम्पत्ति के विक्रय सूचना न प्रतिमूतिकरण और -नीलामी विक्रय नोटिक 5 नीचे वर्णित चल/अ	55674 ईमेल : st हेतु विक्रय पुनर्गंठन तथा स खल सम्पत्तियां	bi.51521@sbi. नोटिस प्रतिमूति हित ं की धारा 13(4
। রদেন ২. ১৯০০০০৮- বা ২০ বিদেশ নি ১৯৫০০৮- বা ১৯৫ বিদেশ বা দিল্লী হলে- সের্জ বা দেওএ৯০০০ বার ক্রিবিদেশ হেরেনি স IMAUDISEMULICH VETERINARY SUBNOEU D. Estt-VRecruit/2022/1325 CORRIGENDL	ण पूर्वस्त रहेने । सकुन अग्रिकार्षे । फड्नांस सिर UNIVERSITY, JAB Date 1: UM	9/05/2022		विनियम 29 के अनु मंडल की बैठक सो कार्यालय में आयोजि 31 मार्च 2022 की के अंकेक्षित वित्तीय जायेगा। उक्त सुबना कंपनी ब साथ स्टॉक एक्सचेज देखी जा सकती है। पुन: सुचित किया ज	सार सलोरा इंटरनेश मवार, 30 मई, 203 त की जाएगी जिसमें समाप्त तिमाही और 1 परिणामों पर खिच नी वेबसाइट यानी ww की वेबसाइट यानी v ाता है कि कम्पनी की	ानल लिमिटेड के निदेशक 22 को कंपनी के पंजीकृत मे अन्य बातों के कंसाथ.साथ वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी गर और अनुमोदन किया ww.salora.com के साथ- www.bseindla.com पर री प्रतिभूतियों में लेनदेन के	प्रति और की	भूत लेनदार के पास गिर जो कुछ भी है" के आजा बकाया राशि की वसूली हे समम्पत्ति के देवसाइट htt	गे ∕ प्रभारित है, का († र पर निम्नवर्णित उद्या तु दिनांक 08.06.2022 निरीक्षण की ति बोलीदाताओं को ps://www.mstce द्वारा अपने बैंक के	संवेशिक श्मीलेश) करना, प्रामिष्ट्रा सेनलर के प्राणिष्ट त्वकर्ता गारंटर्स और कंककर्वाओं को प्रत्यामुत्रादाता, से को बेचा पाएगा। वादीसा मूल्य कोंस आठेम मानगरी थे एवं समय: 01.06.2022 को पूर्वी, 11.0 पुराक्षेत मूल्य की र्युएमडी संसर्थ एमएसटोसी ति commerce.com v दर इस्वे पास ब्रमुरिस आ एमईएकटी हारा 04.05.2022 अप. 04.00 बचे त	त अधिकारी द्वारा लिख प्रतिभूत लेनदार भारत नीथे वर्णित रूपए होर्ग 00 बजे से अर्पा 1मिटेड की ई—नीलाग पने बोलीदाता खाते क अंतरित करनी हे	था गया है, को तीय स्टेट बैंक क ते। 03.00 बजे मी पर जनित च ोगी।	"जहाँ है", जेर की नीचे वर्णित तक ादाद्र
In Continuation to University adverti ted 11-05-2022, the Application form, d Pay tor the post of Fish Farm Mana- her terms and conditions will remain niversity website www.ndvsu.org	Qualification, Siger has been in same. For d	Score Card ncluded. All		कर्मचारियों सहित) व 2022 को समाप्त परिणामों की घोषणा	के लिये 1 अप्रैल, 20 तिमाही और वित्तीय से 48 घंटे की समार्ग	रनेशनल लिमिटेठ के लिए हस्ता/-	हे- क्र. सं.	नौलामी की तिथि व समय कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	Ub-Ub-2022 को बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	पूर्वी. 11.00 बजे से अपहि 03.00 बजे तक 4 घंटे सम्पत्ति(यों) का बिवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	प्रत्येक 10 मिनट की थ आरक्षित मूल्य (रू. सम्पत्ति की बिकी न धरोडर राशि आरक्षित मूल्य बोली वृद्धि) जिससे कम में ही की जाएगी (ईएमडी) का 10%	मेत विस्तार के सम्पर्क हे नाम एवं
New Delhi Televisio				स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 19 मई, 2	022 कंपनी सचिव	(अनुभव निगम) । और अनुपालन अधिकारी	1	मैसर्स एच.के. क्रूसिबल (प्रोप. श्री मोष्ट डसीन) निवासी: मकान नं. 64, किदबई नगर. काली नदी रोड बुलंदशहर	र 58.40 लाख दिनांक 14.07.2021 तक और भविष्य का म्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	अल्पायी संरचना के साम मुमि का प्सॉट, क्षेत्रफल 188.44 वर्ष मी., उत्तम नगर, घनेरा रोड, ग्राम नया गांद, जिला: दुलंदशहर यू.प्री. में शियत, जी मोडम्मद इसीत के नाम पर है। (मीतिक कब्बा बैंक के पास है।)	f ₹ 24.21 ₹ 2.43 = ₹ 0.10 =	लाख	श्री सुधीर र सिन्हा मो. 999913 श्री आर के मो. 989116
Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archa Kailash – I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 666 E-mail:corporate@ndtv.com; Websit Statement of Standalone and O	66 Fax: 2923 17 te:www.ndtv.co	740 .om	esults for the	Quarter and Y	PJI Fear Ended 31	March 2022	2	श्री मनोज पुत्र श्री राजेंद्र सिंह गांव और पीओः वैलाना जिला बुलंदशहर (यूपी) – 203203	₹ 16.18 লাজ বিশাঁক 17.06.2013 বক और मविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	पलेट मं. एकस-804, डितीय तल, जलवायू विडार, प्लॉट मं. 8 पॉकेट-पी-4, बिल्डर्स एरिश, ग्रेटर नेएख में स्थित, चौहरी लीज प्लान के अनुसार (सांकेतिक करूज बेंक के पास है।)	₹ 30.24 ₹ 3.10 ₹ 0.10	लाख	श्री सुधीर य सिन्हा मो. 999913 श्री आर के मो. 989116
Particulars	3 months ended (31/03/2022)	Standalone Current year ended (31/03/2022)		(Rs. 3 months ended (31/03/2022)	in Lakhs except Consolidated Current year ended	t per share data)	3	पालीवाल मार्बल (प्रोप. श्री दिनेश पालीवाल) गाटा न. 1279, शिकंपराबाद देखल, तहसील सिकंदराबाद,	र 19.20 लाख दिनांक 14-07-2021 तक और मविष्य का व्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति गाटा नं. 1278, जोकि सिकंद्राबाद देहात तल्लील सिकंद्राबाद, जिला दुर्वरदाहर में क्षित (सांकेरिक कब्जा बैंक के पास है।)	. ₹ 35.29 ₹ 3.53 = ₹ 0.10 =	लाख	श्री सुधीर न सिन्हा मो. 999913 श्री आर के मो. 989116
Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary	(Unaudited) 5,822 1,778 1,778	(Audited) 23,091 5,919 5,919	(Unaudited) 4,841 1,773 1,773	(Unaudited) 10,380 2,806 2,806	(Audited) 39,640 9,120 9,120	(Unaudited) 8,472 2,999 2,999	4	जिला-वुलंदशहर मोल्ड 2 स्पेक्स प्लास्टिक प्रा. लि. 409–410 इकोटेक एक्सटेशन. जहररू वेटर नोएडा, जिला: जीवी नगर, उत्तर प्रदेश – 201310	र 54.20 साख दिनांक 28-07-2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रमार	मकान मं. 1–418, अल्का 2. रोटर नोएका–201301, यूपी. में विषता, युद्ध क्षेत्रफल 40 वर्ग मी., यह सम्पत्ति भी सुरजीव लिंह विरदी के नाम पर है। (सांगेरिक कन्या वैंक में पास है।)	रें 27.13 र 2.72 व र 0.10 व	লান্ধ	श्री सुघीर सिन्हा मो. 999913 श्री आए के मो. 989116
items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive Income for the	1,778	5,919	1,773	2,416	7,984 8,118	2,611	पर http 04—1	ा∕वालेट जिसमें ईएमडी भेजें पंजीकृत बोलीवाताओं के s://www.mstcecomme	नेजी वालेट एनईएफर्ट rce.com/auctionhor इ जंतरित करनी होगी।	प्रीलिमिटेड के साथ इसकी ईगीलामी साइट https://www.i सीलिमिटेड के साथ इसकी ईगीलामी साइट https://www.i @ https://ndex.jsp. पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीत he/hapi/index.jsp. पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीत brdl सहायता हेषु कृमया एमएसटीसी हेल्पकेरक को मं. 033-44	एमडी मैसर्स एमएसटीस प्रता खाते पर जनित चाल	नी लिमिटेड की नान द्वारा अपने बै	ई—नीलामी वे क के एनईएफा
period Equity share capital Other equity Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing opperations) Badic: Diluted: Hotes: The above is an extract of the deta	2,579 2.76 2.76	2,579 31,970 9.18 9.18	2,579 - 2.75 2.75	2,579 3.75 3.75	2,579 20,706 12.38 12.38	2,579 4,05 4,05	ई- 1. ई एमए 2. प्रा रचार्गि विझा भावी 3. स राशि	डीलामी के नियम एवं शर्तों नि 	नानुसार हैं: , जो कुछ भी है के आ से उनके वेबचोर्टल htt : ज्ञान और जानकारी के त करने वाले दावों/अ ता निर्मित नहीं करता है - ग्री है। प्राधिकृत अधिकार्र शरी ज्ञाया। सफल बोले या जाएगा। सफल वीले	सर पर 'स आयोजित की जा की है क्या 'जीनराइन' ps://www.msisescommerce.com/accion/merce ps://www.msisescommerce.com/accion/merce barray accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accion/merce accio	/ibapi/index.jsp पर प च्छुक बोलीदाताओं को ज जाव, अपनी बोली देने रें 11 । सम्पत्ति / यां, बैंक को देय राशियों के लिए जिम्में सरफल बोलीदाताओं की री हारा बोली मुल्य की मं	संथालित की जाए हएगभार, नीलामी हे पहले, कर लेर्न ज्ञात और अझात दार नहीं होगा। ईएमढी वापस क जुरी पर तत्काल	एगी। में दखी गई सम् गि चाहिए। ई ग समस्त विद्यमा कर दी जाएगी। जमा करनी होग
मुख सात्राल संघर, पुत्र संचय, का उस कर, सरक्षा 2-66, साल सार्थन पर संच क्यू के स्वार्थन कर के लिया विश्ववद्वीपती के क्रिफ्रिकारण के पुर् 2-60, सात की काल पार्क्रम प्रातंगीताल सी प्रक्रियों के स्वार्थन काल पार्क्रम प्रातंगीताल सी प्रक्रियों के स्वार्थन काल स्वार्थ, औं क्षेस कि तिका है, दिसमें उपारस्वांकी में स्वार्थन स्वार्थना के तो नहीं के सित्रा की स्वार्थन के स्वार्थन प्रक्रम के 1990 - व्याराव्यों की स्वार्थन प्रवास काल ती, पुत्र-व्याराव्यों की संच प्रक्रम के 1990 - व्याराव्यों की साथ प्रक्रमना के ती, पुत्र-व्याराव्यों की स्वार्थन स्वार्थना के सित्रा के 1990 - व्याराव्यों की स्वार्थन स्वार्थना के सित्रा के स्वार्थन सीत्रा 1990 - व्याराव्यों की स्वार्थन सीत्रा के सित्रा के स्वार्थन सीत्रा की 1990 - व्याराव्यों की स्वार्थन सीत्रा के सित्रा के स्वार्थना नी सित्र 52222 के बच्चा कार सित्र है। त्यावार्थकी साथ सींव की	र्गठन तथा प्रतिमूति । विरुप लिमिटेड के आंगे के साथ पठित धारा । मंगे दिया पतित धारा । मंगे विरुप कहा क में विरुप कहा क में विरुप कहा क में विरुप रजे भी दे वर्णित संपत्ति पर दे । बिरोष रूप से और	हित अधिनियम् किंगुला क्रीकारी 13(12) के तहल को मांग नोटिस को नोटिस की तमिक तरू सभी 1या है। उक्त है। एतप्रदाश के प्रतिभूति हिल प्रेनियम की धारा अपोहरखाबरी ने र आम तौर पर	जाम जनता को लिया गया है, व क. – सं. –	और विशेष रूप से कर ते 'जहाँ है, जेख है और शाखा क खाते का	विर और गारंदते को र जो कुछ मी हैं ' के अ ा नाम ा नाम	अचल के साथ पठित वित्तीय आसित म् कोटिश दिया जाता है कि हाधार पर बेना जाएगा। वकाय (ह) सरफाली (ह) सरफाली अविभिय (ट) सरफाली जीविभिय	ट) स्मत यों का प्रतिमू के नीचे वर्णित ब राशि की बर ब राशि की ब ब राशि की	स्पत्तियों की तिकरण और पुनर्गठन तथा प्र 1 अथल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत सूली, कर्जवार(सी) और गारंटर	ई-जीला तेपूरि हित का प्रवर्तन आप तेनदार के पास बंधक / (गे), आरशित मूल्य और घ सम्पत्तियों की बिक्री व	अचल सम्पत्तियों का विवरण –	र), प्रतिभूत लेनदार पंजाव (A) आरक्षित मूल्य	नेशनल मैंक के प्र नीलामी	
के साथ कोई भी रोग-नेन आज की रहीर, सब यहाँ विगिर्दिय साथ एककी अक्टोडियल स्विति कर्जा एक स्वारक्षालामान्दरों का विश्वरल स्वति आ जा मांग बोरिस की किंद्र राज की गई सहित क किंदिक की किंद्र 9 क्यों के साथ की खाँ पक्ष 3 केंद्रिक की किंद्र 9 क्यों के साथ को खाँ पक्ष 3 केंद्रिक की किंद्र 9 क्यों के साथ को खाँ साथ 7 कार्युय बीट-2002 जराज्यमा को की के की	विधेत सिथि से लागत का लिमिटेड के अधीन ताता लंख्या, ऋष्ण शा करने की सिथि यहां - अरण खाता चंड्या, 3) आ तेमुसियों का विदयण, 7) व करी और प्राप्ट कुड (क	1 और शुलक के 1न होगा। शि, प्रतिभूति का नीचे दी गई है 20 तरि, 4) वर्ग करने की सिथि	1 पार्टनप	र / गारंटर्स खाते शाखाः राजापुर कल्याणी इंजीनि	(007610)	पता (H) कब्जा की वि				बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककती)	 (B) ईएमडी (C) बोली खरि जानि 	की तिथि एवं जमग	के संझान ऋण भ
पोमू–503102 इसको असावा गाँच नंबर 8 प्रयम गाल विजय और विकास समु विजय, सभी का निवास अवसु(विधोतिया और भोनू–3003702 वाजकारान । साम ७. 200000/- (केवल विश्व तावर जन्म), गाँग युवनमा 15-युवन=2021 तक थ.3.64.308.81 तिर्वेश लाख तिराजी	र चोम् जिला जयपुर जैन मंदिर के पास, न	धत प्यापा अश्वामू जिल्ला जगाव		ग जी आर मखरिया	रेया, 2. श्रीमती कि	<u> इ</u> रण	(E) 26- (F) 30- 7.98 लाख +	तिक / भौतिक/पत्तनात्मक 408-2014 10-2017 - व्याज एवं प्रभार इत्यादि मौतिक	सी, कवी नगर, प सम्पत्ति श्री विनोद चोहरी: पूरव में – 21, दक्षिण में – अ सम्पत्ति का वह र	(सम्पतियों के बंधककताी) सरत पाग एवं अंग्र जोके सम्पति मकान नं, केसी–80, स्रवेक गाठियाबाद, पूर्ग में चिरार, बेजरुज 207.28 वर्ग मी, पह पूजाट न 9, परिषम में – प्लेट नं, 89, उत्तर में – प्लेट नं भोट पीड़ी रोड मलद नाग एवं वंश खोके जम्पति 268, मोहल्ला – भौज	(C) बोली चूदि राशि (A) रु. 250.00 लाख (B) रु. 25.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 90.00 लाख	तिथि एवं समय 06-06-2022 पूर्वाह 11.00 बजे से अर्चाह 04.00 बजे 06-06-2022	के संझान ऋज भा का विक झात ना
इस्पती पेते माथुं और सामलेशक क्या, लागा एवं कृ सामी संविदालक आज क्रिप्तेष के दिवरस अपेति स्वा डुकान संख्या ६. पहली भंकित सोमू दिवस, वापुर स डुकान संख्या १ राजी में महत्वता राजी कि का पूर्व संबत्ता भंगीन प्राया 2 राजी ते का पुरि संवत्ता भंगीन प्राया 2 राजी ते का पुरि संवित्त भंगी ना प्राया 2 राजी ते का पुरि संवित्त भंगी ना भावता 2 राजी ते का प्राया / प्राया भावित्त राजा भंगता / प्राया	दिर्माक 15.08.2021 वा सीस हजार साल सी आ स्वरू आदि के त्राच्या वास या । इंग्रांनि के जम्मी टु जास्यान-30.3702 संगोती े आम सरसा/ परसा : -दुकाम गॉराजा सी-7 भ लि सी चीडिडी, उत्तर, दुब -81 मीडि, जोत्य और पॉ	ु चिन्द्रा, जरगुर योमू-50302.मधु बावार, छोमू कार, करण राष्टि हालीस कप्परे कीर हालीस कप्परे कीर हालीस कप्परे की प्रचेति का उत्तर- और दक्षिण अस्प भूगल, पोसू जिल्ला कान संस्था स-बी होग, उत्तर वानीर,	गारंटर कॉपोरे विदेश देवी, 3 गारंटर 3, श्री नीलम	ग जी आर मखरिया र गाउंटरु कल्याणी म देव उँसो पावर हा 1. श्री देव राज श्री अनु देव 1. श्री देव राज सिंग अनु देव, र. सुरेष पाल सि	रेया, 2. श्रीमती कि 1शीन दूल्स प्रा. लि. गेली) 063010 र लिमिटेड सिंह, 2. श्रीमती ज ह, 2. श्रीमती जाति सिंह, 5. रमेशा चंद	गति (G) रु. 1434 देव. , &	(E) 26- (F) 30- 7.98 লোম্বা + (H) ব (E) 16- (F) 06. 4.21 লোম্বা +	-08-2014 -10-2017 - व्याज एवं प्रभार इत्यादि	 सी, कठी नगर, 1 सम्पत्ति श्री विगेष बोहडी: पुरव में – 21, दक्षिण में – अ सम्पत्ति का कह २ पटेल मार्ग, परिव प् पटेल मार्ग, परिव प् पटेल मार्ग, परिव प् पटेल मार्ग, परिव प् परेल मार्ग, परिव प् परेल मार्ग, परिव प् सम्पत्ति का कह २ अधिकार), रातन प् 1988.89 वर्ग प्रि. 	(सम्पत्तियों के बंधक कहती) सर चाग एवं अंध जीवि कम्पति मकतन नं केवी-20, स्रॉक गावियाया, दुवी में सिंप्स, बेतरबर 2022 वर्ष में, स्र प्रतीय के ता, पॉलिंग ने - सॉट - 80, चार में - सॉट ने प्रतीय के ता, पॉलिंग ने - सॉट - 80, चार में - सॉट न मारव ने पा एवं अंग जीवि गयमी? 200, मोहल्स - मॉज ता बार में रिश्व, प्रेक्टरा के राज में ती, यह प्रतिनि श्री किये द ने पी तीरा मचावायिक पाय रहे । पौरते : पुरुष ने न - पारी जार में - निराय कार्यीत्ता के प्राय रहे । प्रतिये : पुरुष ने - जीवा जा ने - गाति जार में - निराय कार्यीत के प्राय रहे । प्रतिये : पुरुष ने - जीवा जा ने - गाति जार में - निराय कार्यीत्ता के प्राय रहे ।	(C) बोली ভূব্ধি राशि (A) रु. 250.00 লাজ (B) रु. 25.00 लाख (C) रु. 10,000/-	तिथि एवं समय 06-06-2022 पूर्यांह 11.00 बजे से अपॉक 04.00 बजे	के संझान ऋण भा का विक शात न शात न
ទទួល ເຫດາ, ແລະ ແຫ່ງໂລະ ເຊັ້ນ (ແລະ ເຊັ້ນ (ແລະ ເຊັ້ນ (ແລະ ເຊັ້ນ) ແລະ ເດັດເອັ້ນ ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນເຊັ້ນ ແລະ ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ເຊັ້ນ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ເຊັ້ນ ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັນ) ແລະ ເຊັນ (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັນ) (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ) ແລະ ເຊັ້ນ (ເຊັ້ນ) (ເຊັ້ນ	विश्वाक 15.06.2021, 17 सिंग हजर सात ने क रू आदि में साथ याखा मा : हमानि के क्यो टु आज सारता/ रफसा : 	ु चिरता उपराहुत गर्था-काराट-भड़ गर्था काराता (मंगेनू कारा, अदम राशिः शामी क प्रयोग का शामी क प्रयोग का शामी का प्रयोग का भी परिया (- उपरा- की परिया (- व्या शाम, काम शाम, काम, काम शाम, काम, काम, काम, काम, काम, काम, काम, क	गारंटर कॉपोरे विदेश नेदेश जीवत 3 निदेश	ग जो आर मखरिया ट गारंटरु कल्याणी म साहिबाबाद (ईंओर्ब देव उँसो पावर हः 1. श्री देव राज ली अनु देवी :1. श्री देव राज सिंह आजु देव, 4. रविंदर	रेवा, 2. श्रीमती कि 1शीन दुल्स प्रा. लि. 1रेती) 083010 र लिमिटेड सिंह, 2. श्रीमती जाति , दे 2. श्रीमती जाति , दे 2. श्रीमती जाति (370300) टॅंग मा. सि. 2. विमती लाल अरं देख, 2. विमती लाल अरं	त्वान ताहि देख, , ६ , ६ , ७, (0) = 2022 ताल	(E) 26- (F) 30- 7.96 লোজ + (H) গ (E) 16- (F) 06: 4.21 লোজ + (H) গ (E) 17- (F) 23- 2.09 লোজ +	48-2014 10-2017 ब्याज एवं प्रभार इत्यादि मौतिक 84-2014 01.2022 ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	 सी, कवी नगर, प सामदी सी विगोस मॉलरी सी विगोस मॉलरी का सबा ग्रेली में नज रा, रसिम में नज सामदी का सबा पोटल मार्गे, पाठिम पोटल मार्गे, पाठिम मंग्रेल सामदी मंग्रेल सामदी मंग्रेल सामदी सामदी का सबा मंग्रेल सामदी मंग्रेल से सी वा मेंग्रेल से सी वा मेंग्रेल से सी वा मेंग्रेल सामदी 	(मम्पनियों के बंधककती) स्वत भाग एवं का जीति कमती ककान में केली-का स्वति कार्यवाचा, दूसी में किंगत, वेक्सल अठवा को महेन मुप्तर कार्यारेंव के किंगत, वेक्सल अठवा के मान पर हे गरेंट थे का तीमा न नारी ट 4,60 जार में नार्यारें द म प्रतेव की तेक माल का एवं के की कार्यारें 30,0 सेहल्ल – जैना कार्य के फिस्त, वेक्सले 126 की प्रति के एवं म ने जी ने प्रता मार्वाला के कार पर है। वेक्टी, एवं म ने जी ने प्रता मार्ववाची के कार पर है। वेक्टी, एवं म ने जी नार्या मार्वे किंग्र के कार प्रति के प्रति कर कि रें स्व वार्य की की केरेट 2 60,0 वी कहा (निया प्रत के की कार्यप्रेट वार्यन के आदिका स्वी नार्य न है। वेक्टत की कार्य कर की कर की स्वी की वार्य मार्वे न कार पर है। वेक्टत	(c) बोली चुद्धि राशि (A) रु. 250.00 लाख (B) रु. 25.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 90.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 68.27 लाख (B) रु. 6.83 लाख	तिथि एवं समय 06-06-2022 पूर्वांड 11.00 बजे से जर्चांड 04.00 बजे 06-06-2022 पूर्वांड 11.00 बजे से जर्चांड 04.00 बजे 06-06-2022 पूर्वांड 11.00	के संझान जग्र भा का विक शात ना शात ना शात ना
व्यवसी के प्राप्त के सार्वफोक कर कर, सारक (जेड्ड सार्व की स्वीतियन का प्राप्त के प्राप्त की सार सारक सारक कर के प्राप्त के प्राप्त के सारक इसर सारक , प्राप्तिक सारक कर का मिले का पुर सारक सारक कर के प्राप्त के सारक कर का मिले का पुर सारक (ज) के सारक कर के सारक प्राप्त का सार सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त कर के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने प्राप्त के सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर का का माने के सारक कर का माने के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का माने के सारक सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का का माने के सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर के सारक कर का	বিশিল্প হাওএএখা বা বিশেষ বিধায় বাবে আৰু নী পা বাৰ বাৰে পালে নী পা বাৰ বাৰে বাৰে বাৰে বাৰে বাৰে বাৰে বাৰে	ु (तित उत्पुर्व प्रतुप्त मुने-कारा के में मार् के के पर तिने कार् के पर तिने कार्क मार् के पर तिन कार्क मार् के दिकी पर तुम्म का दुखे तो के पर ता का दुखे तो के की ता का का राज्य 6-2 का ज्या है। उत्पाद देश की प्रता 1 की दिवार की प्रतिक्रम की का का का की	गार्टर कीवरि 2 देवे, 3 गीवरे गीवरे गार्टर वार्टन पार्टन	ग जी जार मखरिया ट गारंटरु कल्याणी म चाडिबाबाद (ईंकीर्म देव उत्ते पाल हा	ইয়া, 2. প্ৰীশনী হি হাংগীন বুল্ব য়া, নি, হাংগীন বুল্ব য়া, নি, হ নিনিন্দিউত্ত হ নিনিন্দিউত্ত হ নিনিন্দিউত্ত হ নে প্ৰীনাৰী আনি হিছে, ১. কেষ বাই হ, নি প্ৰানী আনি হিছে, ১. কেষ বাই হ, নি প্ৰানী আনি হিছে, ১. কেষ বাই হ, নি প্ৰানী আনি হ নি প্ৰানী আনি হ নি প্ৰানী আনি হ নি প্ৰান্ধ কৰা হ ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন ন	त्रहण त्राहि (G) रू. 1434 दे र दे र (G) रू. 2922 त्राहा	(E) 26-5 (F) 30-5 (F) 30-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 96-5 (F) 97-5 (F) 92-5 (F) 97-5 (F)	48.2014 10.2017 10.2017 माजिक बबाय एव प्रभार इत्यादि मीजिक 47.2019 10.2019 47.2019 47.2019 40.2019 40.2019 40.2019 40.2011 45.2022 45.2021 45.2021	भी, स्वारी नगर, 1 भाषारी से निर्णाह पुरा में - गोरीटा पुरा में - गोरीटा पुरा में - भाषारी पुरा में - भाषारी का का का स्वार्थ का सार प्रा में - स्वार्थ का सार प्रा में स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्य का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्य का स्वार्य का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्य का स्वार्	(मम्परियों के बंधक कहती) स्वत माए रवे का जीवि कापनि कलन ने संती- कर, संते कारियाका, दूसी ने सिंग, वेक्सल उठवा कर मंसे, स्व मुमार बनारिया की स्वीमत किरण मधारिया के माम पर हे। मंदर 1 के 1, गरिम न - मांदर 1, कु. उत्तर ने - सांदे न ने मंदर 1 के 1, गरिम न - मांदर 1, कु. उत्तर ने - सांदे न ने मंदर 1 के 1, गरिम न - मांदर 1, कु. उत्तर ने - सांदे न ने मंदर 1 के 1, गरिम न - मांदर 1, कि. उत्तर मंदी नी विपेद को गरि पर मा खारिक मंत्र पर है। ठोठी. एवने - ने ने नारों दासर ने - विराज मांदर में विरोध है, एवने - मंद में व का प्रोध के मार पर है। ठोठी. एवने - मंद मंदर व्यं का प्रोति महेन्द्र ने का प्रतार है। ठोठी. एवने - ने में की क्यार होड को ने की मांदे में वी मांदिया गाँवियार में में वे बचार की को मांदे में वी मांदर में 1 के क्या मंदर वे का प्रति मांदे ने का मांदर है। ठोठी. - जांदर ने 1, दक्तिम में ने दराव ने ना ने ने न्यों के मांदर मांदर ने की मांदी की मांदर ने का मांदर है। - जांदर ने 1, दक्तिम में ने प्रांत के ने मांदर है। - जांदर ने 1, दक्तिम में ने प्रांत ने की मांदर में 1 कि क्या ने - वार्व ने ने ने की ने प्रतार ने 1, व्यं के मांदर है। की ने - जांदर ने 1, दक्तिम में ने प्रांत ने 1, व्यं के मांदर है के का मांद है। - जांदर ने 1, दक्तिम में ने प्रांत ने 1, व्यं ने ना ने ने ने ने - को के कि स्वार में ही नी किंदी पूर्व ने - व्यं के मांद में के मांदर के की - वार्व ने ने ने - जांदान ने ने प्रांत ने 1, व्यं ने ना ने	(c) 미치다 미국 도 10,000- (d) 10, 10,000- (e) 10, 10,000- (c) 10,000-	 तिर्विष पूर्व समय समय समय समय समय प्राप्त 1:00 करी ते उसी करते करी करते करी करते करते करते करते करते करते करते करते	के लेखान जरूप भा का विवर इडात ना इडात ना इडात ना इडात ना
व्यक्ती की साथ और वार्कीलक प्राप्त गया की क कुर्वा की विराय का कि प्राप्ति के विराय का मांग हराव का का उनकि के प्राप्ति के विराय का मांग हराव का का उनकि के प्राप्ति के प्राप्त कि के जा बहुत का का उनकि के प्राप्त के कि प्राप्त के कि बहुत के प्राप्त के प्राप्त के कि प्राप्त के कि प्राप्त हराव के प्राप्त के प्राप्त के कि प्राप्त के कि बाद के प्राप्त कि कि का का का का कि प्राप्त कि कि का का का का कि प्राप्त के कि कि का का का का कि कि का का कि कि का का कि कि प्राप्त के कि का कि कि का का कि कि का का कि कि का का कि कि का कि कि का का कि कि का का कि कि का का कि कि का कि कि का का कि कि का का कि कि का का कि कि का का का कि कि का कि कि का का कि कि का का कि का का कि का का कि कि का का कि कि का का कि कि का का कि का का का का कि कि का का कि कि का का कि का का का का का कि कि का का कि कि का का कि का का का का का का कि कि का का कि कि का का कि का का का का का का की कि का का कि कि का का कि का का का का का कि का का की कि का का कि का का का का कि का का का का का का की कि का का कि का का का की कि का का का की कि का	Refer subjects of the second s	ु (तिस्त व्ययुदा मुंभु-काराय क्यु मुं मुंभु-काराय क्यु मुंभु-काराय क्यु मुंभु- कार क्यु में तिम साम के पर तिम साम के पर तिम साम के प्रदेश कि मुंभु- मित्र के प्रदेश क्यु में मुंभु- मित्र के प्रदेश क्यु में मुंभु- मित्र क्यु में प्रदेश क्यु में मुंग क्यु में प्रदेश क्यु में मार क्यु में प्रदेश के मिन् मार्मक्य क्यु मार्क्य के मिन् मार्गक्य क्यु में क्यु में मार्गक्य क्यु मार्गक्य के क्यु में क्यु में क्यु में मार्गक्य क्यु मार्गक्य के मिन् मार्गक्य के मिन्द्र क्यु में मार्गक्य के मिन्द्र के मिन्	ागरंदर कोवारे 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 8 4 3 8 4 3 8 1 7 4 2 3 8 1 9 4 2 1 9 4 2 1 1 9 4 2 1 1 9 4 2 1 1 1 9 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	मा जी आप सवारिता ट गाउँठर कल्याजी न पारियागर (ईस्टोमें देव उंसे पाठमार देव उंसे पाठमार का उन्हें के पाठमार मा उन्हें के पाठमार पाठमार के पाठमार पाठमा के पाठमार पाठमा के पाठमार पाठमा मोटीगग असे कुए पठ में सावसार सा पाठमा मोटीगग असे कुए पठ में नाके पाठमार सा पाठमा मोटीगग असे कुपि पाठमार मा पाठमा मोटीगग मा पाठमा मा पाठमार मा पाठमा मा पाठमार मा पाठमा मा पाठमार मा पाठमा पाठमा पा	रेपा, 2. भीमती कि स्तिनि दुल्स प्रा. लि. किंगे) 005010 र (तिनिदेड सिंह, 2. वीमती पाड़ी, सिंह, 5. परेन पर (170300) 27 प्रा. ति. 2. विभाषी पाल आं रेपेड, 2. किम्पति पाल आं पाडियाबाइ, (26740) 27 प्रा. लि. पूणा गर्मा	्ति स. 2722 (G) स. 2222 (G) स. 2222 (G) स. 2722 (G) स. 2722 (G) स. 2722	(E) 26- (F) 30- 98 लाख + (H) +	48-2014 10-2017 व्याप पर भागर इत्यादि मौरिक 46-2014 47-2019 47-2019 47-2019 47-2019 47-2019 48-2029 बास्तर पर प्रमार इत्यादि मौरिक 49-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021	 भी, क्यों, नगर, 1 भी, क्यों, नगर, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, क्यों,	(सम्परियों के बंधक कहती) स्वतः भाग एवं का जीवि कमानी ककान में लेगी- का जीव कारियाना, दूनी में तिप्ता, वेकाल अटका कर में की, का जारा के सारिया के प्राप्त के प्राप्त करने के ता राष्ट्र 1 के 11 साम – सांद 2, 60, उसर में – सांदि न मारा के रिक्त, वेकपरा 200 समर्थी 200, सोहस्त – जैवा साम के पिक्त, वेकपरा 200 समर्थी, 200 सोहस्त न – जैवा साम के पिक्त, वेकपरा 200 समर्थी, 200 सोहस्त न – में नी नारी के साम क्यों के साम पर है। देखिये एवं में – से वेकपर के प्राप्त के साम पर है। देखिये एवं में – से वेकपर के प्राप्त के साम पर है। देखिये एवं में – से के साम के के साम का एवं का साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम का पर के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम के साम के साम के साम न मारा के साम का साम का साम के साम के साम के साम न मारा के साम के साम का साम के साम के साम के साम न मारा के साम के साम का साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम का साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम का साम के स	(c) चोरमी चुन्दि चारि (A) रु. 250.00 लाख (B) रु. 25.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 30.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 68.27 लाख (B) रु. 9.00 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (A) रु. 149.38 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 149.38 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 149.38 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 10,000/- (A) रु. 10,000/- (A) रु. 257.84 लाख (D) रु. 257.93 लाख	 शिर्षि पूर्व शामप 06-06-2022 पूर्वात 11.00 प्राण्ते 11.00 प्राण	के संतान आज का विकास के साम का आ राज का विकास के साम का विकास क आ राज का विकास के साम का विकास क आ राज का विकास के साम का विकास क आ राज का विकास के साम का विकास क आ राज का विकास के साम का विकास क आ राज का विकास के साम का का विकास के साम का विकास के साम का
पुरुषमा के मानुं के मानुं के सारक्ष प्राप्त का पुरु मानुं महिना के मानुं के सारक्ष प्राप्त के मानुं	िल्लेक आठे.2020 दा हो लिलेक आठे.2021 हा मा हकी के पार्ट के प्राप्त हो मा हकी के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पार्ट के पा	a) First and and a straight of the second	ागरंद जीवरि 2 2 4रेक, 3 3 3 9रिक, 1027 3 3 9रिक, 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027	मा जी आप सवारिता । पाडियापार (ईलोर्ग देव उन्नेरा प्रेलर कल्याणी । देव उन्नेरा पाल क्रिया । देव उन्नेरा पाल क्रिया । 	रेपा, 2. भीमती कि स्तिनि दुल्स प्रा. लि. किंगे) 005010 र (तिनिदेड सिंह, 2. वीमती पाड़ी, सिंह, 5. परेन पर (170300) 27 प्रा. ति. 2. विभाषी पाल आं रेपेड, 2. किम्पी वाल आं रेपेड, 2. किम्पी पाल आं के 2. काम कि	्ति स. 2722 (G) स. 2222 (G) स. 2222 (G) स. 2722 (G) स. 2722 (G) स. 2722	(E) 26- (F) 30- 98 लाख + (H) +	68.2014 16.2017 माना एव प्रभार हरनारि मेंग्रिक 64.2014 61.2022 माना एव प्रभार हरनारि 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2019 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021 47.2021	 भी, क्यों, नगर, 1 भी, क्यों, नगर, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, रास, 1 भी, क्यों, क्यों, रास, 1<td>(ममपरियों के बंधक कहती) सरस माए रहे का जीके मामदी सकल नं केली-कर, स्रके मिल्माक, पूरी में प्रिस, केकल उठक कर मंचे, स्रक मुंगर कहारिय कीर बीमती किल मामदी कठा, में कि ना प्रति दे ना रहे न कु राषिम ना ना ना ना रहे कु उठक ने ना स्रेट न मोट ने कु राषिम ना ना ना ना कु उठक मोहल्ला – मौजा माल मा राष रखे स्वीके मामदी ठठक, मोहल्ला – मौजा माल मार रखे स्वीके मामदी देवके ना पर ने हो किल् में ने ना राष रखे स्वीके मामदी देवके ना मान हा में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड का मान हा में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड के मान महा है किस्सार के स्वीक माने मार्ट के किस्सार में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड के मान महा है कर रहा है के मान कि ना किस्सार के मान हा मार हि के मान पर के निर्माण की वर्ड के मान महा है का तिक मान माल कि मी किस्स केम्मजा ना है किस्सार मार हा है के मान पर ही किस्सार मार है के मान की ने स्वीक स्वीक के स्वीक मान महा किस्सार मार हा है के मान मार्ट के मान की के स्वीक मार कि मान मार की नी किस्सार केम्मजा ना की केस्सार मार हि के मान मार की नी किस्सार केम्मजा ना के स्वीक केस कहा ना ने प्रायत ही केम्मजा की केम्मजा का क्रमजा मार हा है के मान मार्ट के ना किस्सार किस्तार केम्मजा ना के का कहा पाल प्रायत की कि स्वीक की किस्सार केमा ना किस्सार का कहा राष्ट्र रहते ही किस्पार किस्ता में किस्सार केमा का ना किस्ता केस कहा पाल रहते ही किस्पार कीर्ड का ना ना किस्ता मां मार का कहा पाल रहते ही किस्पार कीर्ड का ना नहीं के सार का की कहा पाल रहते ही किस्तार ने राजा रहते ने मासियत केम्स का कहा पाल रहते ही किस्ता मासिक सार्वक का ने के ना किस्ता का कहा पाल रहते ही किस्ता मासिय ने प्रायत की की किस्ता के स्वान ने का का का प्रायत के मा ना का प्रायत ने जातता के स्वान राजा की ना मासिया के का कहा पाल रहते पाल की किस्ता मासिक सार्वक का प्रायत ने ना का कहा पाल रहते ही कि सार का सार की कहता का प्रायत ने राजा राजा का पाल का सार्य की का का प्रायत ने राजा तर का पाल का मार्य के का कहा पाल राख के सार हा का सार का सार का ना ना का ना ना</td><td>(c) ਕोरगी युद्धि राष्ट्रि (A) रु. 250.00 लाख (B) रु. 2.5.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 50.00 लाख (G) रु. 9.00 लाख (B) रु. 9.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 58.27 लाख (B) रु. 9.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 162.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 162.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 149.98 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 104.36 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 10,43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 727.84 लाख</td><td> शिर्षि एवं सामय 06-06-2022 पूर्वात्त 1:.00 करे ते अर्वात - करे ते अर्वत </td><td>के संतान आज का विक स्वान के संतान के संतान के संवान के स ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के स्वान के स स्वान के स्वान के स्व</td>	(ममपरियों के बंधक कहती) सरस माए रहे का जीके मामदी सकल नं केली-कर, स्रके मिल्माक, पूरी में प्रिस, केकल उठक कर मंचे, स्रक मुंगर कहारिय कीर बीमती किल मामदी कठा, में कि ना प्रति दे ना रहे न कु राषिम ना ना ना ना रहे कु उठक ने ना स्रेट न मोट ने कु राषिम ना ना ना ना कु उठक मोहल्ला – मौजा माल मा राष रखे स्वीके मामदी ठठक, मोहल्ला – मौजा माल मार रखे स्वीके मामदी देवके ना पर ने हो किल् में ने ना राष रखे स्वीके मामदी देवके ना मान हा में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड का मान हा में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड के मान महा है किस्सार के स्वीक माने मार्ट के किस्सार में किस्सार कि स्वीक मीट वर्ड के मान महा है कर रहा है के मान कि ना किस्सार के मान हा मार हि के मान पर के निर्माण की वर्ड के मान महा है का तिक मान माल कि मी किस्स केम्मजा ना है किस्सार मार हा है के मान पर ही किस्सार मार है के मान की ने स्वीक स्वीक के स्वीक मान महा किस्सार मार हा है के मान मार्ट के मान की के स्वीक मार कि मान मार की नी किस्सार केम्मजा ना की केस्सार मार हि के मान मार की नी किस्सार केम्मजा ना के स्वीक केस कहा ना ने प्रायत ही केम्मजा की केम्मजा का क्रमजा मार हा है के मान मार्ट के ना किस्सार किस्तार केम्मजा ना के का कहा पाल प्रायत की कि स्वीक की किस्सार केमा ना किस्सार का कहा राष्ट्र रहते ही किस्पार किस्ता में किस्सार केमा का ना किस्ता केस कहा पाल रहते ही किस्पार कीर्ड का ना ना किस्ता मां मार का कहा पाल रहते ही किस्पार कीर्ड का ना नहीं के सार का की कहा पाल रहते ही किस्तार ने राजा रहते ने मासियत केम्स का कहा पाल रहते ही किस्ता मासिक सार्वक का ने के ना किस्ता का कहा पाल रहते ही किस्ता मासिय ने प्रायत की की किस्ता के स्वान ने का का का प्रायत के मा ना का प्रायत ने जातता के स्वान राजा की ना मासिया के का कहा पाल रहते पाल की किस्ता मासिक सार्वक का प्रायत ने ना का कहा पाल रहते ही कि सार का सार की कहता का प्रायत ने राजा राजा का पाल का सार्य की का का प्रायत ने राजा तर का पाल का मार्य के का कहा पाल राख के सार हा का सार का सार का ना ना का ना	(c) ਕोरगी युद्धि राष्ट्रि (A) रु. 250.00 लाख (B) रु. 2.5.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 50.00 लाख (G) रु. 9.00 लाख (B) रु. 9.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 58.27 लाख (B) रु. 9.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 162.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 162.00 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 149.98 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 104.36 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 10,43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 727.84 लाख	 शिर्षि एवं सामय 06-06-2022 पूर्वात्त 1:.00 करे ते अर्वात - करे ते अर्वत 	के संतान आज का विक स्वान के संतान के संतान के संवान के स ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के ज्ञात के स्वान के स स्वान के स्वान के स्व
ुकरणों के मानुं और वायर्थिमार आप, पामा पर कु सारे मंदीराज्य आप, सार्थ मंदीरा का स्थान सार पुराव: सेवार के प्रार्थ मंदीरा किया सार्थ प्रार्थ मंदीरा के प्रार्थ मंदीरा किया सार्थ मंदीरा प्रार्थ मार्व सार्थ में सार्थ मंदीरा के आप भारती सारी मार्ट का प्रार्थ में सार्थ मंदी का प्रार्थ मंदीरा सारे मार्ट का प्रार्थ में सार्थ मंदी का प्रार्थ मंदीरा सारे मार्ट का प्रार्थ में सारं मार्ट का प्रार्थ के सिंह प्रारं का मार्थ मार्थ मार्ट का प्रारं के सिंह प्रारं मार्ट का मार्थ मार्ट के सार्थ में कि सिंह प्रारं मार्ट का मार्थ मार्ट के सार्थ में कि सिंह प्रारं का मार्थ मार्थ मार्ट के सार्थ के सिंह प्रारं का सार्थ में सारं मार्ट के सार्थ के सार्थ में सिंह के सार्थ मार्थ मार्थ मार्ट के सार्थ के सार्थ में सारं के सार्थ में सारं मार्ट के सार्थ के सार्थ में सारं के सार्थ मार्थ मार्थ मार्ट के सार्थ के सार्थ मार्ट के सार्थ के सारं	Refer subcassi ti Refer subcasi ti Refer subcassi ti Refer subcassi ti Refer subcasi	(Inst. and git (Inst. and git (Ins	ागरंद जोवारे 2 निदेश गविदेश गविदेश गविदेश गरंद ठ ह द ह द ह ह द ह र गरंद गरंद गरंद गरंद गरंद गरंद गरंद गर	म जी आप सवारिता ट गारंटर करवाणी - र यारंटर करवाणी - ये के स्वार्थ के प्राप्त देव के सी पान - अर्थ वे र पान - अर्थ वे प्राप्त - क्यांत्व गायकेंट - क्यांति गायकेंट. - अर्थात मार्थेंट. - अर्थात मार्थेंंट. - अर्थात मार्थेंंट. - अर्थात मार्थेंंट. - अर्थात मार्थेंंट. - अर्थात मार्थेंंट. - अर्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंट. - अर्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थेंंत मार्थें के सार्वें के स्वार्यें मार्थें के सार्वें के सार्व	रेपा, 2. भीमती कि स्पीन दुल्स प्रा. लि. किंगी 005010 र लिमिन्टेड स्थित 2. भीमती गणति स्थित, 2. भीमती गणति स्थित, 2. भीमती गणति स्था 2. भीमती गणता स्था 2. भीमती गणता, दे (05200) स्थानेदर्स एवर आप केंद्र प्रा. 2. भीमती किंगता स्थानेदर्स एवर आप केंद्र प्रा. 2. भीमती किंगता स्थानेदर्स स्था 2. अपगत मुद्द प्रा. विम्राता स्थानेदर्स प्रा. 2. पूजा मर्ग स. 2. पूजा मर स. 2. पूजा म्र स. 2. प्र 3. प्र स. 3. प्र स. 3. प्र स. 3.	त्वा ति	(E) 58- (F) 38- (F) 38- (F) 38- (F) 48- (F) 48- (F) 48- (F) 48- (F) 42- (F) 42	48-2014 10-2017 व्याप पर भागर इत्यादि मौरिक 46-2014 47-2019 47-2019 47-2019 47-2019 47-2019 48-2029 बास्तर पर प्रमार इत्यादि मौरिक 49-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021 42-2021	 भी, क्यों, नगर, प्रमाण के नगर, प्रमाण के निर्णात के निर्णा कर कर	(सम्परियों के बंधक कहती) सर भाग रहे का जीवि मामरी ककान में केली- का जीव कारियाज, दूसी में किस, केलक उठक कर में केल मुंबर क्यादिय कीर बीमती किस मुंबरिय के मामर रहे । मार क्यादिय कीर बीमती किस म्यादिय के मामर रहे । मार के मार के मान मान मान मार के मान मार के मार के मार के मान मान मान मान मान मान मान मान साथ के सिक, केम्प्रक रक्ष के मार रहे । केविट, पूर्व में मा के बार के मार के मार रहे । केविट, पूर्व में मा के मार के मार के मार रहे । केविट, पूर्व में मा के मार के मार रहे । केविट, पूर्व में मा के मार के मार के मार रहे । केविट, पूर्व में मार के मार के मार रहे । केविट, पूर्व में मार के मार के मार मान मान मान मान मान मान मान मार के मार के मार मान के मार रहे । केविट, पूर्व में मार के मार के मार के मार के मार के मार मान मान मान मार के मार के मार मान	(a) 학감 위 및 목 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	 तिर्विष पूर्व समय 06-06-2022 पूर्वात 1:00 करे से अर्वात के अर्व	्रमात नर प्रमात नर प्राप्त नर प्राप्त नर प्राप्त नर प्राप्त नर